



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 1979/चैत्र 8, 1901

No. 135]

NEW DELHI THURSDAY, MARCH 29, 1979/CHAITRA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1979

का० आ० 161(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ बड़ौदा के अनुरोध पर, 29 मार्च, 1979 से राजस्थान राज्य में मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि राजस्थान राज्य के चुरु जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एक० 1-1/79-भार०भार०बी०(i)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th March, 1979

S.O. 161(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Bank of Baroda, establishes, with effect from the 29th March, 1979, a Regional Rural Bank in the State of Rajasthan under the name of Marudhar Kshetriya Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the district of Churu in the State of Rajasthan.

[No. F. 1-1/79-RRB(I)]

का०आ० 162(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक आफ बड़ौदा से परामर्श करके, चुरु को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एक० 1-1/79-भार०भार०बी०(ii)]

S.O. 162(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and the Bank of Baroda by which Marudhar Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Churu as the place where Marudhar Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1/79-RRB(II)]

का० आ० 163(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एक० 1-1/79-भार०भार०बी०(III)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 163(E).—In pursuance of sub-section (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Marudhar Kshetriya Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-1/79-RRB(III)]
BALDEV SINGH, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग, बम्बई)

29 मार्च, 1979

अधिसूचना

क्र० भा० 164(अ).— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात्:—
मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरु ।

[डि०बी०ओ०डी० सं० 161/आई०एन०सी०एल०/सी० 102-79]

एम० रामकृष्णैया, उप गवर्नर

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development,
Bombay)

29th March, 1979

NOTIFICATION

S.O. 164(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

Marudhar Kshetriya Gramin Bank, Churu.

[DBOD. No. 161/INCL/C/102-79]

M. RAMAKRISHNAYYA, Dy. Governor.